



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 33] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 14-अगस्त 20, 2004 (श्रावण 23, 1926)
No. 33] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 14-AUGUST 20, 2004 (SRAVANA 23, 1926)

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	707	भाग II—खण्ड 3 उपखण्ड—(iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दो प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं) *	
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	823	भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किये गये सांविधिक नियम और आदेश *	
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं	3	भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, निबंध और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	785
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं	1129	भाग III—खण्ड 2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस	6139
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम *		भाग III—खण्ड 3—मुद्रा आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग II—खण्ड 1 क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ *		भाग III—खण्ड 4—विभिन्न अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक विधायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	3581
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिज तथा रिपोर्ट *		भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस	235
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) *		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्ज करने वाला समुदाय *	
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किये गये सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं *			

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए ।

CONTENTS

	Page		Page
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	707	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..	
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court ..	823	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence ..	3	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India ..	785
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence ..	1129	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs ..	6139
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations ..		PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the Authority of Chief Commissioners ..	—
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language of Acts, Ordinance and Regulations ..		PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies ..	3581
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills ..		PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies ..	235
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules including Orders, Bye-laws, etc. of general character issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi ..	
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..			

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

(इसका मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएँ

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

वस्त्र मंत्रालय

वस्त्र उद्योग

नई दिल्ली, दिनांक 27 जुलाई 2004

सदस्य

सं० 1/5/2003-सीटी-2—कपास सलाहकार बोर्ड जिसका पुनर्गठन दिनांक 6-2-2004 की समसंख्यक अधिसूचना के माध्यम से किया गया, के निम्नलिखित सदस्यगण जब तक इसका पुनर्गठन नहीं होगा, तब तक के लिए तत्काल प्रभाव से बोर्ड के सदस्य नहीं रहेंगे :—

7. श्री श्याम रतन केडिया

7/सी, रवि ताज, अठवालाइन्स,
सुरत-395007 (गुजरात)

8. श्री जे० तुलसीधरन,

प्रबध निदेशक,
दि राजा रतन मिल्स (प्रा०) लि०,
कोयम्बटूर, तमिलनाडु

9. श्री पुरुषोत्तम पटेल,

कृष्णा बंगला, सीतल प्लाजा के नजदीक,
संदेश प्रेस रोड, बोडकदेव,
अहमदाबाद-380 054

10. श्री मुकूल कसलीवाल

एस कुमारस,
मुंबई

जिनिंग एवं प्रेसिंग क्षेत्र

सदस्य

1. श्री मनसुबभाई श्यामजीभाई खचरिया,
देसाई वाडी, निकट सोमनाथ मंदिर
जेटपुर, जिला राजकोट, गुजरात

2. डॉ० (श्री) अजय मिश्रा,
गोरा, बरहाज,
जिला-देवरिया, उत्तर प्रदेश

3. श्री के० यादगिरि रेड्डी,
मरामुनगाला गाँव,
वैथी-उन्नदावल्ली, मंडल आलमपुर
जिला-महबूबनगर-509153

4. श्री जम्मूला श्याम किशोर,
तुल्लूर, तुल्लूर मंडल
गुटूर-522 237

5. श्री शंकरप्पा,
आर० वी० एम० निलय के सामने
मनिक प्रभु टेम्पल रोड,
रायचूर, कर्नाटक

6. श्री पांडुरंग फडकर,
'वसुन्धरा' माधव नगर
खामगांव, मंडल-राष्ट्र

11. श्री जी० पुनंह चौधरी,
अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश काँटन एसोसिएशन,
लक्ष्मीपुरम-मैनरोड, गुटूर-522 007 (अं० प्र०)

12. के० आर० सिवासुब्रमण्यन,
36/1, कारुवमपलयम एक्स्टेंशन,
मंगलम रोड, तिरुपुर-641 601

13. श्री अशोक कुमार सरकार,
एफ 30/6, करुनामोयी हाऊसिंग एस्टेट,
साल्ट लेक, कोलकता-700091

कपास अनुसंधान एवं विकास

सदस्य

14. श्री सुरेश कोटक,

अध्यक्ष
इंजीनियरी का कौटाप अनुसंधान फाउंडेशन,
मुंबई

15. श्री जगदीश मसेट्टीवार,
प्रबंध निदेशक,
संदेश जिनिंग और ऑयल मिल,
भैंसा-504103,
अदिलबाद, हैदराबाद, आंध्रप्रदेश

यह भी आदेश दिया जाता है कि इसका प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया जाए।

अतुल चतुर्वेदी, संयुक्त सचिव

16. श्री ईश्वर चन्द्र शर्मा,
ई-164, सेक्टर-41, नोएडा,
गौतमबुद्ध नगर, पिन-201303 (उत्तर प्रदेश)

मानव ससाधन विकास मंत्रालय
(माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग)
नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2003

17. श्री संजीव सरन
रीति एजिज एंड एप्लीकेशन (प्रा०) लि०,
142, कुबेर लिंक रोड,
अंधेरी (पश्चिम), मुंबई-400053

सं० एफ. 9-11/2000/यू-3—विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का 3) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लोनी, जिला-अहमदनगर, महाराष्ट्र को उपर्युक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ तत्काल प्रभाव से सम विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करती है बशर्ता तीन वर्षों के बाद इसकी समीक्षा की जाए।

रवि माथुर, संयुक्त सचिव

विद्युतकरघा क्षेत्र

सदस्य

18. श्री इकराम अहमद अंसारी,
601, गली घंटेवर, कटरा नील,
चांदनी चौक, दिल्ली-110 006

19. श्री घनश्याम राय,
गांव व पो० ऑ० भिरहा,
समस्तीपुर, बिहार

दिनांक 29 जून 2004

हृतकरघा क्षेत्र

सदस्य

20. श्री ई पलानीसामी
मै० एम्सट्रॉंग मिल्स
राम नगर, सलेम-641 601
21. श्री हनुमंथा रेड्डी,
सुपुत्र सूर्यनारायण रेड्डी,
पान्डीलापाल्ली, बेटापलेम मंडल,
जिला प्रकाशम-523 184
आंध्र प्रदेश

22. श्री टी० आर० गोपालन
16, कृष्णापुरम कॉलोनी,
5वीं स्ट्रीट, मदुरै-625 014

23. श्री मुकेश गुप्ता,
ई-247, ग्रेटर कैलाश-1
नई दिल्ली-110048

2. कपास सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन के संबंध में दिनांक 6-2-2004 की अधिसूचना सं० 1/5/2003-सीटी-2 उपर उल्लिखित सीमा तक संशोधित है।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक प्रति सभी संघितों को भेजी जाए।

सं० एफ० 9-25/2000-यू, 3—दिनांक 13-01-2003, 05-02-2003 और 08-08-2003 की समसंख्यक अधिसूचनाओं के क्रम में तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा-3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सलाह पर एतद्वारा घोषणा करती है कि अमृता विश्वविद्यालयपोठम, कोयम्बटूर, जो सम-विश्वविद्यालय है, के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 12 जनवरी, 2008 के पश्चात् समीक्षा की शर्त के अधीन तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित दो संस्थानों को शामिल किया गया है :—

- अमृता प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, अमृतापुरी, केरल; और
- अमृता प्रौद्योगिकी और विज्ञान संस्थान, बेंगलोर

रवि माथुर, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 6 अगस्त 2004

संकल्प

भारत सरकार ने दिनांक 6 जुलाई, 2004 के इस विभाग के संकल्प संख्या 2-24/93-पी एन-1 के तहत पुनर्गठित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड में निम्नलिखित अधिकारियों के नाम पदेन सदस्यों के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है :—

1. अध्यक्ष

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्

इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम

आई० पी० एस्टेट, नई दिल्ली-110002

2. अध्यक्ष,
दूरस्थ शिक्षा परिषद्,
मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068

‘पदेन सदस्य’ श्रेणी के अन्तर्गत उक्त दो नामों को शामिल करने के लिए उक्त संकल्प के संलग्नक को संशोधित किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए इस संकल्प की प्रति भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, विश्वविद्यालयों, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग की संस्थाओं/संगठनों को सूचार्थ प्रेषित की जाए।

च० बालाकृष्णन, संयुक्त सचिव

शहरी रोजगार एवं गरीबी उपशमन मंत्रालय

नई दिल्ली-11, दिनांक 14 जून 2004

कार्यालय आदेश

सं० ए-13016/1/97-आवास-II/IV (पाठ) —सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय किया गया है कि श्री श्याम कपूर, उप सचिव (एन०एस०डी०पी०) तत्काल प्रभाव से राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन (संबद्ध कार्यालय) में निदेशक के पद पर अपनी नियुक्ति के परिणामस्वरूप, इसके बाद, श्री हजारी लाल, निदेशक (आवास) के स्थान पर बीस सूची कार्यक्रम सहित राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन से संबंधित मामलों में विभागाध्यक्ष के रूप में सभी सांविधिक व वित्तीय अधिकारों का प्रयोग करेंगे।

श्री श्याम कपूर, उप सचिव तथा निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन इसके पद पर नियुक्ति के अलावा अपने सामान्य कार्य भी करते रहेंगे।

वी० वी० जोगा राव,
डेस्क अधिकारी (आ० IV)

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 27th July 2004

F. No. 1/5/2003-CT-II—The following Members of the Cotton Advisory Board, reconstituted vide Notification of even number dated 6-2-2004, will cease to be Member of the Board with immediate effect, pending its reconstitution :—

COTTON GROWERS

Members

1. Sh. Manshukhbhai Shyamjibhai Khacharia,
Desai Vadi, Near Somnath Temple,
At. Jetpur, Dist. Rajkot, Gujarat
2. Dr. (Sh.) Ajay Mishra,
Gaura Barhaz,
Distt. Deoria, Uttar Pradesh
3. Shri K. Yadagiri Reddy,
Maramunagala Village
Via-Undavalli, Mandal-Alampur
Distt. Mahaboobnagar-509153
4. Shri Jammula Shyam Kishore
Tullur, Tullur Mandal,
Guntur-522237
5. Shri Shankarappa,
Opp. RVM Nilaya
Manik Prabhu Temple Road,
Raichur, Karnataka
6. Shri Pandurang Fundkar
'Vasundhara' Madhav Nagar,
Khamgaon, Maharashtra

TEXTILE INDUSTRY

Members

7. Shri Shyam Ratan Kedia
7/C, Ravi Taj, Athwalines,
Surat-395007 (Gujrat)
8. Shri J. Thulasidharan,
Managing Director,
The Raja Ratna Mills (P) Ltd.,
Coimbatore, Tamil Nadu
9. Shri Purushottam Patel
Krishna Bunglow, Nr. Shital Plaza,
Sandesh Press Road, Bodakdev,
Ahmedabad-380054
10. Shri Mukul Kasliwal
S. Kumars', Mumbai

GINNING & PRESSING SECTOR

Members

11. Shri G. Punnaiah Chowdhary,
President, Andhra Pradesh Cotton
Association,
Laxmipuram, Main Road, Guntur-522007
(A.P.)
12. Shri K. R. Sivasubramanian
36/1, Karuvampalayam Extn.
Mangalam Road, Tiruppur-641601
13. Shri Ashoke Kumar Sarkar
F30/1 Karunamoyee Housing Estate,
Salt Lake, Kolkata-700091

COTTON RESEARCH DEVELOPMENT**Member**

14. Shri Suresh Kotak,
Chairman-Cotaap Research Foundation of
EICA
Mumbai.
15. Shri Jagdeesh Mashettiwar
Managing Director,
Sandesh Ginning and Oil Mill
Bhainsa-504103, Adilabad, Hyderabad
Andhra Pradesh
16. Shri Ishwar Chandra Sharma
E-164, Sector-41, Noida, Gautam Budh
Nagar,
PIN-201303 Uttar Pradesh
17. Shri Sanjeev Saran
Reeti Exim & Application (P) Ltd.
142, Kuber Link Road, Andheri (W)
Mumbai-400053

POWERLOOM SECTOR**Member**

18. Shri Ikram Ahamed Ansari
601, Gali Ghanteshwar, Katra e,
Chandni Chowk, Delhi-110006.
19. Shri Ghanshyam Rai
Vill. & P. O. Bhirha, Samastipur, Bihar

HANDLOOM SECTOR**Member**

20. Shri E. Palanisamy
M/s. Armstrong Mills
Ram Nagar, Salem-641601
21. Shri Hanumantha Reddy
S/o Suryanarayana Reddy,
Pandillapalli, Vetapalem Mandal,
Prakasam Distt-523184, Andhra Pradesh
22. Shri T. R. Gopalan
16, Krishnapuram Colony,
5th Street, Madurai-625014
23. Shri Mukesh Gupta
E-247, Greater Kailash-I
New Delhi-110048

2. The Notification No. 1/5/2003-CT-II dated 6-2-2004 regarding reconstitution of the Cotton Advisory Board stands modified to the extent stated above.

ORDER

Ordered that a copy of this Notification be communicated to all concerned.

Ordered also that it be published in the Gazette of India.

ATUL CHATURVEDI, Jt. Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(DEPARTMENT OF SECONDARY & HIGHER EDUCATION)**

New Delhi, the 29th September 2003

No. F. 9-11/2000-U. 3—In exercise of the powers conferred by section 3 of the University Grants Commission Act, 1956 (3 of 1956), the Central Government, on the advice of the University Grants Commission, hereby declare the Pravara Institute of Medical Sciences, Loni, Dist. Ahmednagar, Maharashtra as Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect subject to a review after three years.

RAVI MATHUR, Jt. Secy.

The 29th June 2004

No. F. 9-25/2000-U. 3—In continuation of notifications of even number dated 13-1-2003, 5-2-2003 & 8-8-2003 and in exercise of the powers conferred by section 3 of the University Grants Commission Act, 1956, the Central Government, on the advice of the University Grants Commission hereby declare that the following two institutes are included under the ambit of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, a Deemed to be University for the purpose of the aforesaid Act with immediate effect subject to a review after 12th January 2008 :—

- i) Amrita Institute of Technology and Science, Amritapuri, Kerala; and
- ii) Amrita Institute of Technology and Science, Bangalore

RAVI MATHUR, Jt. Secy.

New Delhi, the 6th August 2004

RESOLUTION

The Government of India have decided to include the following officials as Ex-Officio Members in the Central Advisory Board of Education reconstituted vide resolution this Department's Resolution No. 2-24/93-PN. I dated 6th July, 2004.

1. Chairman
National Council for Teacher Education
Indira Gandhi Indoor Stadium
I.P. Estate
New Delhi-110 002

2. Chairman
Distance Education Council
Maidan Garhi
New Delhi-110 068

The Annexure to the aforesaid Resolution will stand modified to the extent of incorporating the above two names under the category 'Ex-Officio Members'.

ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

Also ordered that a copy of the Resolution be forwarded to all the Ministries/Departments of the Government of India, all State Governments/Union Territories Administration, Universities, Institutions/Organisations of the Department of Secondary and Higher Education, Ministry of Human Resource Development etc. for information.

C. BALAKRISHNAN, Joint Secy.

MINISTRY OF URBAN EMPLOYMENT & POVERTY ALLEVIATION

New Delhi-11, the 14th June 2004

OFFICE ORDER

No. A.13016/1/97-H-II/IV (Pt.)I—It has been decided with the approval of Competent Authority that Shri Shyam Kapoor, Deputy Secretary (NSDP) consequent his appointment as Director, National Building Organization (attached office) with immediate effect, will here-in-after exercise all statutory and financial powers as Head of Department in so far as matters relating to NBO are concerned including Twenty Point Programme Vice Shri Hazari Lal, Director (Housing).

The appointment of Shri Shyam Kapoor, Deputy Secretary and Director, NBO will be in addition to his normal duties.

V. V. JOGA RAO, Desk Officer (H. IV)